

a	अ
b	ब
c	च
d	द
e	इ
f	फ
g	ग
h	ह
i	इ
l	ल
n	न
r	र
s	स
t	ट
u	उ

k	क	ख
l	ल	ळ
m	म	म्
n	न	न्
o	ओ	ऌ
p	प	फ
q	क्यू	कु
r	र	ऱ
s	स	स्
t	ट	ठ
u	उ	ऊ

v	व	व्ह
w	व	व्ह
x	ख	खि
y	य	यि
z	ज	जि

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●

(HINDI + THAI)

THANDI

(THINGS IM NOT BRAVE ENOUGH TO TELL ANYONE BUT MYSELF.)

a	अ
b	ब
c	क
d	द
e	इ
f	फ
g	ग
h	ह
i	इ
l	ल
n	न
o	ओ
p	प
q	क
r	र
s	स
t	त
u	उ

k	क	ख	ग
l	ल	ळ	ल
m	म	म	म
n	न	न	न
o	ओ	ओ	ओ
p	प	फ	प
q	क	ख	ग
r	र	र	र
s	स	स	स
t	त	थ	त
u	उ	ऊ	उ

v	व	व	व
w	व	व	व
x	ख	ख	ख
y	य	य	य
z	ज	झ	ज

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●



WHAT AM I FEELING NOW? WHY DO YOU FEEL LIKE THIS? IS IT THE PLACE? THE PEOPLE? THE WEATHER? THE SOUND OR NOISE? WHAT IS IT? AM I JUST OVER THINKING & PRESSURING MYSELF TO SOME UNKNOWN EXPECTATIONS?

अब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? आपको ऐसा क्यों लगता है? गलत है? लज्जा? सीमा? आवाज या शोर? क्या है वह? रहा है और खुद पर क्या व डाल रहा हूँ?

क्या मैंने कुछ सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है?

a	अ	आ
b	ब	बा
c	च	चा
d	द	दा
e	इ	ई
f	फ	फा
g	ग	गा
h	ह	हा
i	इ	ई

k	क	का
l	ल	ला
m	म	मा
n	न	ना
o	ओ	औ
p	प	पा
q	क	का
r	र	रा
s	स	सा
t	ट	ठा
u	उ	ऊ

v	व	वा
w	व	वा
x	ख	खा
y	य	या
z	झ	झा

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●

I AM OVERWHELMED, OVERWHELMED BY SO MANY THINGS IN LIFE. HOW DO I ILLUSTRATE MY FEELINGS & FACE IT?

मैं अभिभूत हूँ। जीवन में इतनी सारी चीजों से अभिभूत
 मैं अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करूँ और इसका
 सामना कैसे करूँ?

मैं बहुत ही अधिक कामों से अभिभूत हूँ। मैं
 उन्हें कैसे व्यक्त करूँगा और मैं इसे कैसे
 सामना करूँगा?

a	अ
b	ब
c	च
d	द
e	इ
f	फ
g	ग
h	ह
i	ई
j	ज
k	क
l	ल
m	म
n	न
o	ओ
p	प
q	क्यू
r	र
s	स
t	ट
u	उ

k	क	ख	ग
l	ल	ळ	लृ
m	म	मळ	म्लृ
n	न	नळ	न्लृ
o	ओ	ओळ	ओलृ
p	प	पळ	प्लृ
q	क्यू	क्यूळ	क्यूलृ
r	र	रळ	रलृ
s	स	सळ	सलृ
t	ट	टळ	टलृ
u	उ	उळ	उलृ

v	व	वळ	वलृ
w	व	वळ	वलृ
x	ख	खळ	खलृ
y	य	यळ	यलृ
z	झ	झळ	झलृ

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●

WHAT IS THE HARDEST TRUTH? NOTHING IS CONSTANT. CHANGE IS THE ONLY CONSTANT. I WILL HAVE TO KEEP ADAPTING, KEEP UNLEARNING & LEARNING AGAIN. I WILL HAVE TO KEEP UP WITH THE WORLD. LIFE HAS TO GO ON NO MATTER WHAT.

सबसे कठोर सच क्या है? कुछ भी स्थिर नहीं है।
 केवल परिवर्तन ही स्थायी है। मुझे आदम चलते
 रहना होगा सीखना रहना होगा और फिर से
 सीखना होगा। मुझे दुनिया के साथ चलना
 होगा। जीवन को चलते रहना है चाहे कुछ भी हो।

क्या सबसे कठोर सच है? कुछ भी स्थिर नहीं है।
 केवल परिवर्तन ही स्थायी है। मुझे आदम चलते
 रहना होगा सीखना रहना होगा और फिर से
 सीखना होगा। मुझे दुनिया के साथ चलना
 होगा। जीवन को चलते रहना है चाहे कुछ भी हो।

a	आ	अ
b	ब	ब
c	च	च
d	द	द
e	ए	ए
f	फ	फ
g	ग	ग
h	ह	ह
i	इ	इ
l	ल	ल
n	न	न
o	ओ	ओ
p	प	प
q	क	क
r	ख	ख
s	स	स
t	ट	ट
u	उ	उ

k	क	क
l	ल	ल
m	म	म
n	न	न
o	ओ	ओ
p	प	प
q	क	क
r	ख	ख
s	स	स
t	ट	ट
u	उ	उ

v	व	व
w	व	व
x	ख	ख
y	य	य
z	ज	ज

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●

WHAT KEYS YOU GOING? PEOPLE WHO MATTER IN MY LIFE. THEY MAKE ME FEEL LOVED & SPECIAL. THEY MAKE ME FEEL APPRECIATED. THEY MOTIVATE ME.

आपको क्या चल रहा है? जो लोग मेरे जीवन में मायने रखते हैं वे मुझे प्यार और ख्याल महसूस कराते हैं। वे मुझे सराहना महसूस कराते हैं। वे मुझे प्रेरित कराते हैं।

वे मेरे जीवन में मायने रखते हैं। वे मुझे प्यार और ख्याल महसूस कराते हैं। वे मुझे प्रेरित कराते हैं। वे मेरे जीवन में मायने रखते हैं। वे मुझे प्यार और ख्याल महसूस कराते हैं। वे मुझे प्रेरित कराते हैं।

a	अ	आ
b	ब	बा
c	च	चा
d	द	दा
e	इ	ई
f	फ	फा
g	ग	गा
h	ह	हा
i	इ	ई

k	क	का
l	ल	ला
m	म	मा
n	न	ना
o	ओ	औ
p	प	पा
q	क्यू	क्या
r	र	रा
s	स	सा
t	त	ता
u	उ	ऊ

v	व	वा
w	वू	वु
x	ख	खा
y	य	या
z	झ	झा

"THANDI": ●
 ENGLISH: ●
 HINDI: ●
 THAI: ●

HEY YOU! YES YOU! YOU'RE DOING GREAT! EVERYONE IS PROUD OF YOU!

हेय यू! यैस यू! यूअर डूइंग ग्रेट! एवरीवन इ प्रूड ऑफ यू!
 हाउ इट गूड! अ वेक ऑफ कंसेलरींग यूअर वर्क डूइंग
 यू अर डूइंग इट एवरी डे!

YOU ARE NOT ALONE!

यू अर नॉट अलोन!
 तुम अकेले नहीं हो!

AM I FEELING NOW? WHY DO YOU FEEL LIKE THIS? IS IT
FACE? THE PEOPLE? THE WEATHER? THE SOUND OR NOISE?
IT? AM I JUST OVER THINKING & PRESSURING MYSELF
UNKNOWN EXPECTATIONS?

मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ?
आपको मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ?
आपकी भावनाएँ? आपकी प्रतीक्षाएँ?
आपकी आवाजें? आपकी मुस्कानें?
आपकी आँखें? आपकी आँसूएँ?
आपकी आँसूएँ? आपकी मुस्कानें?
आपकी आँसूएँ? आपकी मुस्कानें?
आपकी आँसूएँ? आपकी मुस्कानें?

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

DAY 6

(HINDI + THAI)

THANDI

(THINGS IM NOT BRAVE ENOUGH TO TELL ANYONE BUT MYSELF.)

STUDIO VISUAL CULTURE
FIONA & RISHIKA '23: